




TINY SIZE. HUGE SOUND.

BittyBoomers.com

## QUICK START GUIDE



- Turn ON/OFF by pressing the Button for 3 seconds.
- If the speaker makes a beeping sound, this means the speaker needs to be charged.
- The Button can also be used to take photos from your smart phone when the smart phone's camera app is running.
- Each speaker comes with a lanyard which can be placed through an indentation/hole on top of the speaker. Location varies depending on design.

## PAIRING SPEAKER WITH BLUETOOTH ENABLED DEVICE

- Turn ON by pressing the Button for 3 seconds.
- A blue LED light will light up then flash quickly, indicating it is in pairing mode.
- In your device's Bluetooth menu, locate and select **"Bitty Boomer"**.
- A tone will sound when pairing is complete.

## PAIRING 2 SPEAKERS TOGETHER

- Make sure no **"Bitty Boomer"** speakers are currently connected to your device. If so, disconnect in devices Bluetooth settings.
- Power on each speaker one at a time.
- Double click Button on the 2nd speaker. You will hear a chirp sound, then the opposite speaker will make a short connect sound. (If you do not hear connect sound, double click opposite speaker Button)

## CONNECTING TO MULTIPLE DEVICES

- Only 1 device can be connected within range.
- To connect a different device in the same range you must first disconnect **"Bitty Boomer"** from current connected device.

## CHARGING INTERNAL BATTERY

Insert the Micro USB end of charging cable into speaker port located on back of speaker. Plug the USB end of charging cable into a USB computer port or USB plug/adaptor. Once fully charged the LED indicator light will turn off.

## PRODUCT SPECIFICATIONS

- POWER RATING: PO = 1X3W
- TRANSMITTING FREQUENCY: 20HZ-20KHZ
- THD: <1%
- S/N: >80DB
- SPEAKER PARAMETER: 3W
- BATTERY: 3.7V/300mAH
- BLUETOOTH VERSION: V5.3

**Warning:** To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this speaker to rain or moisture (including swimming pools or objects filled with liquids, such as vases or drinks). **Warning:** Your speaker has an internal rechargeable battery. Improper usage may result in the speaker becoming hot, ignite, or bust and cause injury if exposed to conditions of abuse.

**Important Safety Instructions:** 1. Always read safety and operation instructions before use. Retain instructions for later reference. 2. For indoor use only. Do not expose speaker to liquid, moisture or humidity. 3. Do not use abrasive cleaners to clean the speaker casing as they may damage the finish. Liquid cleaners can also get inside the speaker and damage internal parts. A simple cloth to wipe away dirt and other particles will do the job nicely. Always unplug the unit before cleaning. 4. Do not expose the speaker to extremely high or low temperatures. 5. Keep the unit away from direct sunlight. 6. Do not attempt to open or modify the speaker in any way as it does not contain any serviceable parts. 7. Please store the speaker in a dry place that is free from extreme temperatures and dust. 8. Always operate the speaker on a flat and level surface. 9. If unit is plugged in, always operate away from small children or small animals as they may play with the power cord. 10. Do not leave a fully charged battery connected to a charger, overcharging may shorten its lifetime. 11. Always dispose of the packaging and speaker in accordance with the local regulations and in a responsible manner.

**LIMITED WARRANTY:** Bitty Boomers/ Fabrique Innovations Inc. warrants to the first consumer purchaser that this product, when shipped in its original container to the original purchaser, will be free from defective workmanship and materials for one year and agrees that it will, at its option, either repair the defect or replace the defective product or part thereof at no charge to the purchaser for parts or labor for the time periods described.

This warranty does not apply to any appearance items of the product nor to the additional excluded item(s) set forth below nor to any product the exterior of which has been damaged or defaced which has been subjected to misuse, abnormal service or handling or which has been altered or modified in design or construction. The limited warranty described herein is in addition to an applicable law. ALL IMPLIED WARRANTIES INCLUDING THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR USE ARE LIMITED TO THE PERIOD FROM THE DATE OF ORIGINAL PURCHASE SET FORTH BELOW. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty last, so the above limitation may not apply to you. Neither the sales personnel of the seller nor any other person is authorized to make any warranties other than those described herein or to extend the duration of any warranties beyond the time period described herein on the behalf of Bitty Boomers/ Fabrique Innovations Inc. The warranties described herein shall be the sole and exclusive warranties granted by Bitty Boomers/ Fabrique Innovations Inc. and shall be the sole and exclusive remedy available to the purchaser corrections of defects, in the manner and for the period of time described herein, shall constitute complete fulfillment of all liabilities and responsibilities of Bitty Boomers/ Fabrique Innovations Inc. to the purchaser with respect to the product and shall constitute full satisfaction of all claims, whether based on contract negligence, strict liability or otherwise. In no event shall Bitty Boomers/ Fabrique Innovations Inc. be liable or in any way responsible for any incidental or consequential economic or properly damage. Some states do not allow the exclusion of incidental or consequential damages, so the above exclusion may not apply to you. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS. YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS, WHICH VARY FROM STATE TO STATE.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Fabrique Innovations Inc./ Bitty Boomers is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

FCC Warning: This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction. This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

© 2021, Fabrique Innovations Inc., © 2021 Bitty Boomers, © 2021 Bigger Bitty Boomers • Distributed by Fabrique Innovations Inc., New York, NY 10018 • 800-511-1595 • All Rights Reserved • Made In China



FCC ID: 2AR17BB5 IC: 24431-BB5  
CMIIT ID: 2020DP3626 QDID: 172491  
DECLARATION ID: D056623 HVIN: BB5


For Questions or Technical Support Please Contact:  
[support@bittyboomers.com](mailto:support@bittyboomers.com)





**TINY SIZE. HUGE SOUND.**

BittyBoomers.com

## GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE





- Allumez/éteignez en appuyant sur le  bouton pendant 3 secondes.
- Si le haut-parleur émet un bip sonore, cela signifie que le haut-parleur doit être chargé.
- Le  bouton peut également être utilisé pour prendre des photos de votre téléphone intelligent lorsque l'application appareil photo du téléphone intelligent est en cours d'exécution.
- Chaque haut-parleur est livré avec une longe qui peut être placée à travers une indentation / trou sur le dessus du haut-parleur. L'emplacement varie en fonction de la conception.

## APPARIEMENT DU HAUT-PARLEUR AVEC L'APPAREIL BLUETOOTH

- Allumez en appuyant sur le  bouton pendant 3 secondes.
- Une lumière LED bleue s'allume, puis clignote rapidement, indiquant qu'elle est en mode appariement.
- Dans le menu Bluetooth de votre appareil, localisez et sélectionnez **"Bitty Boomer"**
- Une tonalité retentit lorsque l'analyse est terminée.

## APPARIEMENT DE 2 HAUT-PARLEURS ENSEMBLE

- Assurez-vous qu'aucun haut-parleur **"Bitty Boomer"** n'est actuellement connecté à votre appareil. Si c'est le cas, débranchez les paramètres Bluetooth des appareils.
- Alimenter chaque haut-parleur un à la fois.
- Double-cliquez sur  Bouton sur le deuxième haut-parleur. Vous entendrez un son de gazouillis, puis le haut-parleur opposé fera un son de connexion court. (Si vous n'entendez pas le son de connexion, double-cliquez  bouton haut-parleur)

## CONNEXION À PLUSIEURS APPAREILS

- Un seul appareil peut être connecté à portée.
- Pour connecter un autre appareil de la même plage, vous devez d'abord déconnecter **"Bitty Boomer"** de l'appareil connecté actuel.

## CHARGEMENT DE LA BATTERIE INTERNE

Insérez l'extrémité Micro USB du câble de chargement dans le port du haut-parleur situé à l'arrière du haut-parleur. Branchez l'extrémité USB du câble de chargement dans un port d'ordinateur USB ou une fiche/adaptateur USB. Une fois complètement chargé, le témoin lumineux à DEL s'éteint.

## SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

- PUISSANCE NOMINALE: PO = 1X3W
- FRÉQUENCE DE TRANSMISSION: 20HZ-20KHZ
- THD: <1%
- S/N: >80DB
- PARAMÈTRE DU HAUT-PARLEUR: 3W
- BATTERIE (BATTERY): 3.7V/300MAH
- BLUETOOTH VERSION: V5.3

**Mise en garde :** Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas ce haut-parleur à la pluie ou à l'humidité (y compris les piscines ou les objets remplis de liquides, comme les vases ou les boissons). Avertissement : Votre haut-parleur est alimenté par une pile interne rechargeable. Une mauvaise utilisation peut entraîner la température du haut-parleur, l'allumer ou le casser et causer des blessures s'il est exposé à des conditions d'abus.

**Consignes de sécurité importantes:** 1. Lisez toujours les consignes de sécurité et d'utilisation avant de l'utiliser. Conserver les instructions pour référence ultérieure. 2. Pour une utilisation à l'intérieur seulement. N'exposez pas le haut-parleur à du liquide, à de l'humidité ou à de l'humidité. 3. N'utilisez pas de nettoyants abrasifs pour nettoyer le boîtier du haut-parleur, car ils pourraient endommager le fini. Les nettoyants liquides peuvent également entrer à l'intérieur du haut-parleur et endommager les pièces internes. Un simple tissu pour essuyer la saleté et d'autres particules fera le travail bien. Débranchez toujours l'appareil avant de le nettoyer. 4. N'exposez pas le haut-parleur à des températures extrêmement élevées ou basses. 5. Gardez l'appareil à l'écart de la lumière directe du soleil. 6. N'essayez pas d'ouvrir ou de modifier le haut-parleur de quelque façon que ce soit, car il ne contient aucune pièce pouvant être faite d'entretien. 7. Veuillez ranger le haut-parleur dans un endroit sec et exempt de températures extrêmes et de poussière. 8. Toujours faire fonctionner le haut-parleur sur une surface plane et plane. 9. Si l'appareil est branché, utilisez toujours l'appareil à l'écart des jeunes enfants ou des petits animaux, car ils peuvent jouer avec le cordon d'alimentation. 10. Ne laissez pas une batterie complètement chargée branchée à un chargeur, une surcharge peut réduire sa durée de vie. 11. Jetez toujours l'emballage et le haut-parleur conformément à la réglementation locale et de façon responsable.

**GARANTIE LIMITÉE :** Bitty Boomers/ Fabrique Innovations Inc. garantit au premier acheteur que ce produit, lorsqu'il sera expédié dans son contenant d'origine à l'acheteur d'origine, sera exempt de main-d'œuvre et de fabrication défectueuses pendant un an et accepte qu'il réparera, à sa discrétion, le défaut ou remplacera le produit défectueux ou une partie de celui-ci sans frais pour l'acheteur pour les pièces ou la main-d'œuvre pour les périodes décrites. Cette garantie ne s'applique pas aux articles d'apparence du produit ni aux articles supplémentaires exclus indiqués ci-dessous ni à tout produit dont l'extérieur a été endommagé ou dégradé et qui a fait l'objet d'une mauvaise utilisation, d'un service ou d'une remise anormal ou qui a été modifié ou modifié dans sa conception ou sa construction. La garantie limitée décrite dans le présent document s'ajoute à une loi applicable. **TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'APTITUDE À L'UTILISATION, SONT LIMITÉES À LA PÉRIODE À COMPTER DE LA DATE D'ACHAT INITIALE INDICÉE CI-DESSOUS.** Certains États n'autorisent pas de limitations quant à la durée d'une garantie implicite, de sorte que la limitation ci-dessus peut ne pas s'appliquer à vous. Ni le personnel de vente du vendeur ni aucune autre personne n'est autorisé à faire des garanties autres que celles décrites aux présentes ou à prolonger la durée des garanties au-delà de la période décrite aux présentes au nom de Bitty Boomers/ Fabrique Innovations Inc.

Les garanties décrites dans les présentes seront les garanties exclusives accordées par Bitty Boomers/ Fabrique Innovations Inc. et constitueront le seul et unique recours à la disposition de l'acheteur pour les corrections de défauts, de la manière et pour la période décrites dans le présent document, constitueront l'exécution complète de toutes les responsabilités de Bitty Boomers/ Fabrique Innovations Inc. envers l'acheteur à l'égard du produit et constitueront la pleine satisfaction de toutes les réclamations, que ce soit sur la base d'une négligence contractuelle, d'une compétence stricte ou autrement. En aucun cas Bitty Boomers/ Fabrique Innovations Inc. ne peut être tenue responsable ou responsable de quelque façon que ce soit de tout dommage économique consécutif ou de dommages matériels. Certains États n'autorisent pas l'exclusion des dommages accessoires ou consécutifs, de sorte que l'exclusion ci-dessus peut ne pas s'appliquer à vous. **CETTE GARANTIE VOUS DONNE DES DROITS LÉGAUX SPÉCIFIQUES. VOUS POUVEZ ÉGALEMENT AVOIR D'AUTRES DROITS, QUI VARIENT D'UN ÉTAT À L'AUTRE.**

La marque ® les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Fabrique Innovations Inc./ Bitty Boomers est sous licence. Les autres marques de commerce et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

**Avertissement de la FCC :** Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne peut causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement indésirable. Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler le pouvoir de l'utilisateur d'utiliser l'équipement. Remarque : Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère des utilisations et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, rien ne garantit que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, qui peuvent être déterminées en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes : Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice. Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur. Branchez l'équipement dans une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté. Consultez le concessionnaire ou un technicien expérimenté en radio/télévision pour obtenir de l'aide. L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux radiofréquences. L'appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition portables sans restriction. Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptées de licence d'Industrie Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne peut pas causer d'interférences, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

© 2021, Fabrique Innovations Inc., © 2021 Bitty Boomers, © 2021 Bigger Bitty Boomers • Distribué par Fabrique Innovations Inc., New York, NY 10018 • 800-511-1595 • Tous droits réservés • Fabriqué en Chine

       
 FCC ID: 2AR17BB5 IC: 24431-BB5  
 CMIIT ID:2020DP3626 QDID:172491  
 DÉCLARATION ID: D056623 HVIN: BB5

Pour toute question ou assistance technique, veuillez contacter:


[support@bittyboomers.com](mailto:support@bittyboomers.com)



TINY SIZE. HUGE SOUND.

BittyBoomers.com

## 快速入门指南



- 按下 **⏻** 按钮3秒。
- 如果揚聲器發出蜂鳴聲，則意味著揚聲器需要充電。
- **⏻** 如果揚聲器發出蜂鳴聲，則意味著揚聲器需要充電。
- 每个扬声器都配有一个挂绳，可以通过扬声器顶部的凹痕/孔放置。位置因设计而异。

## 將揚聲器與啟用藍牙設備配對

- 按下打開 **⏻** 按钮3秒。
- 藍色LED燈會亮起，然後快速閃爍，指示它處於配對模式。
- 在設備的藍牙功能表中，定位並選擇「小潮人」。
- 當平整完成時，音調會響起。

## 將2個揚聲器配對到一起

- 確保當前沒有「Bitty Boomer」揚聲器連接到您的設備。如果是這樣，在設備藍牙設置中斷開連接。
- 每個揚聲器一次一個電源。
- 按兩下 **⏻** 按钮在第二個揚聲器上。你會聽到嗚叫聲，然後對面的揚聲器會發出短的连接聲音。(如果您沒有聽到连接聲音，請按兩下對面 **⏻** 揚聲器按钮)

## 連接到多個設備

- 只有 1 台設備可以在範圍內連接。
- 要在相同的範圍內連接不同的設備，您必須首先斷開當前連接設備中的"Bitty Boomer"連接。

## 為內部電池充電

將充電電纜的微型USB端插入揚聲器背面的揚聲器埠。將充電電纜的USB端插入USB計算機埠或USB插頭/適配器。一旦充滿電，LED指示燈將關閉。

## 產品規格

- 額定功率: PO = 1X3W
- 功率評級: 20HZ-20KHZ
- 週三: <1%
- S/N: >80DB
- 揚聲器參數: 3W
- 電池: 3.7V/300mAH
- 藍牙版本: V5.3

警告：為了降低火災或觸電的風險，不要使揚聲器暴露在雨水或水分（包括游泳池或裝滿液體的物體，如花瓶或飲料）。警告：揚聲器具有內部充電電池。不當使用可能導致揚聲器變熱、起火或破裂，如果暴露在濫用條件下，可能會造成傷害。

重要安全說明：1. 使用前請務必閱讀安全和操作說明。保留說明以供以後參考。2. 僅供室內使用。不要使揚聲器暴露在液體、水分或濕度中。3. 不要使用磨料清潔器清潔揚聲器外殼，因為它們可能會損壞表面。液體清潔劑也可以進入揚聲器內部並損壞內部部件。一個簡單的布，以清除污垢和其他顆粒將很好地做這項工作。清潔前始終拔下設備插頭。4. 不要使揚聲器暴露在極高或極低的溫度下。5. 使裝置遠離陽光直射。6. 不要試圖以任何方式打開或修改揚聲器，因為它不包含任何可維修部件。7. 請將揚聲器存放在乾燥的地方，沒有極端溫度和灰塵。8. 始終在平面和平面表面上操作揚聲器。9. 如果單元插入，請始終遠離小孩或小動物，因為它們可能玩電源線。10. 不要將充滿電的電池連接到充電器，過度充電可能會縮短其使用壽命。11. 始終按照當地規定和負責任的方式處理包裝和揚聲器。

有限保證：Bitty Boomers/Fabrique Innovations Inc. 向第一个消费者购买者保证，本产品在以原始容器运送给原始购买者后，在一年内不会出现工艺和材料缺陷，并同意在其选项，无论是修理缺陷还是更换有缺陷的产品或其中的一部分，在描述的时间段内不向购买者收取零件或人工费用。

本保修不适用于产品的任何外观项目，也不适用于以下列出的额外排除项目，也不适用于任何外观已损坏或污损、遭受误用、异常服务或处理的产品，或在设计或建造方面已被更改或修改。此处描述的有限保修是适用法律的补充。包括适销性和适用性保证在内的所有默示保证仅限于以下规定的原始购买日期。有些州不允许限制默示保证的持续时间，因此上述限制可能不适用于您。卖方的销售人员或任何其他人均无权代表 Bitty Boomers/Fabrique Innovations Inc 做出除本文所述的任何保证或将任何保证的期限延长至本文所述的时间段之外。

此处所述的保证是 Bitty Boomers/Fabrique Innovations Inc. 授予的唯一和排他性保证，并且是买方以此处描述的方式和期限纠正缺陷的唯一和排他性补救措施，应构成完全履行 Bitty Boomers/Fabrique Innovations Inc. 就产品对买方的所有责任和义务，并构成对所有索赔的完全满足，无论是基于合同疏忽、严格责任或其他原因。在任何情况下，Bitty Boomers/Fabrique Innovations Inc. 均不对任何间接经济或适当损害承担责任或以任何方式负责。某些州不允许排除偶然或间接损害，因此上述排除可能不适用于您。本保证授予您特定的法律权利。您可能还拥有其他权利，这些权利因州而异。

藍牙®字標誌和標誌是藍牙SIG公司擁有的註冊商標，法布里克創新公司/Bitty Boomers使用此類商標的任何行為都獲得許可。其他商標和商號是各自所有者的商標和商號。

FCC 警告：此設備符合 FCC 規則的第 15 部分。操作受以下兩個條件約束：(1) 本設備不得造成有害干擾；(2) 該設備必須接受收到的任何干擾，包括可能導致未達到所需操作的干擾。未明確批准的合規方未明確批准的任何更改或修改都可能使用戶操作設備的權力失效。注意：根據 FCC 規則第 15 部分，已測試並發現該設備符合 B 類數位設備的限制。這些限制旨在提供合理的保護，防止對住宅設施的有害干擾。該設備產生用途，可以輻射射頻能量，如果不按照說明安裝和使用，可能會對無線電通信造成有害干擾。但是，不能保證特定安裝不會發生干擾。如果該設備確實對無線電或電視接收造成有害干擾，可以通過關閉和打開設備來確定，則鼓勵用戶嘗試通過以下一項或多種方法糾正干擾：重新定向或重新置放接收天線。增加設備和接收機之間的分離。將設備連接到不同於接收器連接的電路上的插座。請諮詢轉銷商或經驗豐富的廣播/電視技術人員尋求說明。該設備已評估，以滿足一般射頻暴露要求。該設備可在攜帶型曝光條件下不受限制地使用。此設備符合加拿大工業部免許可的 RSS 標準。操作受以下兩個條件約束：(1) 此設備不得造成干擾，(2) 此設備必須接受任何干擾，包括可能導致設備無法運行的干擾。

© 2021, Fabrique Innovations Inc., © 2021 Bitty Boomers, © 2021 Bigger Bitty Boomers • 分發者 Fabrique Innovations Inc., New York, NY 10018 • 800-511-1595 • 保留所有權利 • 中國製造



有關問題或技術支援，請聯繫：  
support@bittyboomers.com



TINY SIZE. HUGE SOUND.

BittyBoomers.com

### クイック スタート ガイド



- を押してオン/オフを切り **⏻** 3秒間ボタン。
- スピーカーがビーブ音を鳴らす場合は、スピーカーに充電する必要があります。
- **⏻** ボタンは、スマートフォンのカメラアプリが実行されているときにスマートフォンから写真を撮るためにも使用できます。
- 各スピーカーには、スピーカーの上にインデクション/ホールを通して配置できるストラップが付属しています。場所はデザインによって異なります。

### ブルートゥース対応デバイスとスピーカーをペアリングする

- を押してオンにします。 **⏻** 3秒間ボタン。
- 青色のLEDライトが点灯し、すぐに点滅し、ペアリングモードであることを示します。
- デバイスのBluetoothメニューで、「**Bitty Boomer**」を探して選択します。
- ペアリングが完了すると音が鳴ります。

### 2つのスピーカーをペアリングする

- 「**Bitty Boomer**」スピーカーがデバイスに接続されていることを確認します。その場合は、デバイスの設定Bluetooth取り外します。
- スピーカーの電源を1つずつオンにします。
- ダブルクリック **⏻** 2番目のスピーカーのボタン。チャープ音が聞こえ、その後、反対側のスピーカーが短い接続音を作ります。(接続音が聞こえない場合は、反対側をダブルクリックします。 **⏻** スピーカー ボタン)

### 複数のデバイスへの接続

- 範囲内で接続できるデバイスは1台のみ。
- 同じ範囲の別のデバイスを接続するには、まず現在接続されているデバイスから「**Bitty Boomer**」を切断する必要があります。

### 内部バッテリーの充電

ケーブルの充電ケーブルのマイクロUSBエンドをスピーカーの背面にあるスピーカーポートに接続します。充電ケーブルのUSB端子をUSBコンピュータポートまたはUSBプラグアダプタに差し込みます。完全に充電されると、LEDインジケータライトが消灯します。

### 製品仕様

- 電力定格: PO = 1X3W
- 送信周波数: 20HZ-20KHZ
- THD: <1%
- S/N: >80DB
- スピーカーパラメータ: 3W
- 電池: 3.7V/300mAH
- ブルートゥースバージョン: V5.3

警告:火災や感電のリスクを軽減するために、このスピーカーを雨や湿気(スイミングプールや花瓶や飲み物などの液体で満たされた物体を含む)にさらしないでください。警告: スピーカーに充電式バッテリーが内蔵されています。不適切な使用は、スピーカーが熱くなったり、点火したり、バストしたりして、虐待の条件にさらされると傷害を引き起こす可能性があります。

重要な安全指示:1.常に使用前に安全と操作の指示をお読みください。後で参照するために指示を保持します。2.屋内使用のみ。スピーカーを液体、湿気、湿度にさらさない。3. 研磨剤洗剤を使用して、仕上げを損傷する可能性があるため、スピーカーケースを清掃しないでください。液体クリーナーは、スピーカーの内部に入り、内部部品を損傷することもあります。汚れや他の粒子を拭き取るためのシンプルな布はうまく仕事をします。クリーニングの前に必ずユニットを取り外してください。4. スピーカーを極端に高温または低温に曝さないでください。5. 直射日光の当たる場所に保管してください。6. スピーカーは、サービス可能なパーツが含まれていないため、スピーカーを開いたり変更したりしないでください。7.極端な温度やほこりのない乾燥した場所にスピーカーを保管してください。8.常に平らで平らな面でスピーカーを操作してください。9.ユニットが差し込まれている場合は、電源コードで遊ぶ可能性があるため、常に小さな子供や小動物から離れて動作します。10.充電器に接続された完全に充電されたバッテリーを残さないで、過充電すると寿命が短くなる可能性があります。11. 常に、現地の規制に従い、責任ある方法で包装とスピーカーを処分する。

限定保証:Bitty Boomers/ Fabrique Innovations Inc.は、この製品が元の購入者に元のコンテナに出荷された場合、欠陥のある製品と材料から1年間無料であることを最初の消費者購入者に保証し、そのオプションで欠陥を修理するか、欠陥のある製品またはその一部を購入者に無償で交換することに同意します。この保証は、製品の外觀項目、または以下に記載されている追加の除外品目、および誤用、異常なサービスまたは手渡しを受けた、または設計または建設中に変更または変更された外部の製品には適用されません。ここに記載されている限定保証は、適用される法律に加えて適用されます。商品性および使用への適合性の保証を含むすべての黙示保証は、以下に定める最初の購入日からの期間に限定されます。一部の州では、黙示保証の持続期間に制限が認められるため、上記の制限は適用されない場合があります。販売者の販売担当者も他の担当者も、本明細書に記載されているもの以外の保証を行ったり、Bitty Boomers/Fabrique Innovations Inc.に代わって本明細書に記載されている期間を超えて保証の期間を延長したりする権限を与えられずます。本書に記載されている保証は、ビティ・ブーマーズ/ファブリケ・イノベーションズ社が付与する唯一かつ排他的な保証です。また、本書に記載されている方法および期間において、欠陥の購入者の訂正に利用できる唯一かつ排他的な救済策は、製品に関するビティ・ブーマーズ/ファブリケ・イノベーションズ社の全ての負債および責任を購入者に完全に履行するものとし、契約過失、厳格な可能性、またはその他の方法に基づくかどうかにかかわらず、アル請求の完全な満足を構成するものとする。いかなる場合も、ビティ・ブーマーズ/ファブリケ・イノベーションズ社は、結果的な経済的または適切な損害に対して責任を負わないか、またはいかなる責任も負いません。一部の州では、付随的または結果的な損害の除外が許可されていないので、上記の除外は適用されない場合があります。この保証は、あなたに特定の法的権利を与えます。また、州によって異なるその他の権利を持つ場合もあります。

Bluetooth®ワードマークとロゴは、Bluetooth SIG社が所有する登録商標であり、Fabrique Innovations Inc./Bitty Boomersによるそのような商標の使用はライセンスの下にあります。その他の商標および商号は、それぞれの所有者の商標です。

FCC の警告: このデバイスは FCC 規則の第 15 部に準拠しています。操作は、次の2つの条件に従う:(1)この装置は有害な干渉を引き起こさない可能性があり、(2)この装置は、望ましくない操作を引き起こす可能性のある干渉を含む、受信したいかなる干渉も受け入れなければならない。コンプライアンスを担当する当事者によって明示的に承認されていない変更または変更は、機器を操作するユーザーの権限を無効にする可能性があります。注: この装置はテストされ、FCC 規則の第15部に従ってクラスBデジタル装置の限界に従うことを発見した。これらの制限は、住宅施設の有害な干渉に対する合理的な保護を提供するように設計されています。この装置は使用を生成し、無線周波数エネルギーを放射することができ、インストールされていないと、指示に従って使用する場合、無線通信に有害な干渉を引き起こす可能性があります。ただし、特定のインストールで干渉が発生しない保証はありません。この装置が無線またはテレビの受信に有害な干渉を引き起こす場合、機器の電源を入れたりオンにしたりすることで判別できる場合、ユーザーは、受信アンテナの方向を変更または再配置する方法の 1 つ以上によって干渉を修正することを推奨されます。装置と受信機の間を分離を増やします。受信機が接続されている回路とは異なる回路のコンセントに装置を接続します。販売店や経験豊富なラジオ/テレビ技術者に問い合わせをお問い合わせください。デバイスは、一般的な RF 露出要件を満たすように評価されています。装置は制限なしで携帯用露出条件で使用することができます。このデバイスは、カナダ産業のライセンス免除 RSS 標準に準拠しています。操作は、次の2つの条件に従う:(1)このデバイスは干渉を引き起こさない可能性があり、(2)このデバイスは、デバイスの望ましくない動作を引き起こす可能性のある干渉を含む、任意の干渉を受け入れなければならない。

© 2021, Fabrique Innovations Inc., © 2021 Bitty Boomers, © 2021 Bigger Bitty Boomers • 配布方法 Fabrique Innovations Inc., New York, NY 10018 • 800-511-1595 • すべての権利予約 • メイド・イン・チャイナ



ご質問やテクニカルサポートについては、以下にお問い合わせください。


support@bittyboomers.com



TINY SIZE. HUGE SOUND.

BittyBoomers.com

## क्वकि स्टार्ट गाइड



- दबाव डालकर चालू/बंद करें 3 सेकंड के लिए बटन।
- यदि वक्ता बीप ध्वनिकरता है, तो इसका मतलब है कि स्पीकर को चार्ज करने की जरूरत है।
- वही स्मार्ट फोन का कैमरा ऐप चलने पर अपने स्मार्ट फोन से फोटो लेने के लिए बटन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
- प्रत्येक वक्ता एक डोरी के साथ आता है जिसे स्पीकर के शीर्ष पर एक इंडेंटेशन/होल के माध्यम से रखा जा सकता है। स्थान डिजाइन के आधार पर बदलता रहता है।

## ब्लूटूथ सक्षम डेवाइस के साथ स्पीकर बांधना

- दबाने से चालू करें 3 सेकंड के लिए बटन।
- एक नीली एलईडी लाइट फरि जल्दी फ्लैश हो जाएगी, यह दर्शाता है कि यह पेयरिंग मोड में है।
- अपने डेवाइस के ब्लूटूथ मेनू में, "बट्टी बुमेर" का पता लगाएं और चुनें।
- बांधना पूरा होने पर एक स्वर ध्वनिकरेगा।

## 2 वक्ताओं को एक साथ बांधना

- सुनिश्चित करें कि कोई "बट्टी बुमेर" वक्ताओं वर्तमान में अपने डेवाइस से जुड़े हुए हैं। यदि हां, तो डेवाइस ब्लूटूथ सेटिंग्स में डिसिनेक्ट करें।
- एक समय में प्रत्येक वक्ता पर शक्ति एक।
- डबल क्लिक करें 2 स्पीकर पर बटन। आप एक चहचहाहट ध्वनि सुनेंगे, फरि वपिरीत वक्ता एक शॉर्ट कनेक्ट ध्वनि बनाएगा। (यदि आप कनेक्ट ध्वनि नहीं सुनते हैं, तो वपिरीत डबल क्लिक करें वक्ता बटन)

## कई उपकरणों से कनेक्ट होना

- केवल 1 डेवाइस सीमा के भीतर जोड़ा जा सकता है।
- एक ही रेंज में एक अलग डेवाइस कनेक्ट करने के लिए आपको पहले वर्तमान कनेक्टेड डेवाइस से "बट्टी बुमेर" डिसिनेक्ट करना होगा।

## आंतरिक बैटरी चार्ज

स्पीकर के पीछे स्थिति स्पीकर पोर्ट में चार्जिंग केबल का माइक्रो यूएसबी एंड डालें। यूएसबी कंप्यूटर पोर्ट या यूएसबी प्लग/एडाप्टर में केबल चार्ज करने के यूएसबी एंड को प्लग करें। एक बार पूरी तरह से चार्ज एलईडी संकेतक प्रकाश बंद हो जाएगा।

## उत्पाद वनिर्देश

- पावर रेटिंग: PO = 1X3W
- प्रसारण आवृत्ति: 20HZ-20KHZ
- टीएचडी: <1%
- S/N: >80DB
- स्पीकर पैरामीटर: 3W
- बैटरी: 3.7V/300mAH
- ब्लूटूथ संस्करण: V5.3

चेतावनी: आग या बजिली के झटके के जोखिम को कम करने के लिए, इस वक्ता को बारिश या नमी (स्वमिगि पुल या तरल पदार्थों से भरे वस्तुओं, जैसे फूलदान या पेय सहति) में बेनकाब न करें। चेतावनी: आपके स्पीकर में एक आंतरिक रीचार्जिंग बैटरी है। अनुचित उपयोग के परिणामस्वरूप स्पीकर गर्म हो सकता है, प्रज्वलित हो सकता है, या बसट हो सकता है और दुरव्यवहार की स्थितियों के संपर्क में आने पर चोट का कारण बन सकता है।

महत्वपूर्ण सुरक्षा निर्देश: 1. उपयोग से पहले हमेशा सुरक्षा और संचालन निर्देश पढ़ें। बाद में संदर्भ के लिए निर्देश बनाए रखें। 2. केवल इनडोर उपयोग के लिए। तरल, नमी या आर्द्रता के लिए स्पीकर का प्रदाफाश न करें। 3. स्पीकर आवरण को साफ करने के लिए घर्षण क्लीनर का उपयोग न करें क्योंकि वे खत्म होने से नुकसान पहुंचा सकते हैं। लक्विड क्लीनर स्पीकर के अंदर भी मलि सकते हैं और आंतरिक हिस्सों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। गंदगी और अन्य कणों को मटाने के लिए एक साधारण कपड़ा काम को अच्छी तरह से करेगा। सफाई से पहले हमेशा यूनिट को अनप्लग करें। 4. बहुत अधिक या कम तापमान के लिए स्पीकर का प्रदाफाश न करें। 5 यूनिट को सीधी धूप से दूर रखें। 6. किसी भी तरह से स्पीकर को खोलने या संशोधित करने को प्रयास न करें क्योंकि इसमें कोई सर्विसिबल हिस्सा नहीं है। 7. कृपया स्पीकर को एक सूखी जगह पर स्टोर करें जो अत्यधिक तापमान और धूल से मुक्त है। 8. हमेशा एक फ्लैट और स्तर की सतह पर स्पीकर संचालित करें। 9. यदि डिवाइस में खामियों को दूर किया जाता है, हमेशा छोटे बच्चों या छोटे जानवरों से दूर काम के रूप में वे बजिली कॉर्ड के साथ खेल सकते हैं। 10. चार्जर से जुड़ी पूरी तरह से चार्ज की गई बैटरी को न छोड़ें, ओवरचार्जिंग से इसका जीवनकाल छोटा हो सकता है। 11. हमेशा स्थानीय नियमों के अनुसार और एक जम्मेदार तरीके से पैकेजिंग और स्पीकर का निपटान करें।

सीमति वारंटी: Bitty पीढ़ी की तुलना/Fabrique नवाचार इंक पहले उपभोक्ता खरीदार के लिए वारंटी है कि इस उत्पाद, जब मूल खरीदार को अपने मूल कंटेनर में भेज दिया, दोषपूर्ण कारीगरी और सामग्री में एक वर्ष के लिए स्वतंत्र हो जाएगा और सहमत है कि यह, अपने वकिल पर, या तो दोष की मरंमत या दोषपूर्ण उत्पाद या भाग उसके हिस्से के लिए कोई शुल्क पर की जगह समय अवधि के लिए खरीदकर्ता के लिए वर्णति अवधि के लिए।

यह वारंटी उत्पाद के किसी भी उपस्थिति आइटम पर लागू नहीं होती है और न ही नीचे उल्लेखित अतिरिक्त बहिष्कृत आइटम (एस) पर और न ही किसी भी उत्पाद के लिए, जिसका बाहरी हिस्सा क्षतिग्रस्त या वरिपति किया गया है, जसि दुरुपयोग, असामान्य सेवा या सौंपने के अधीन किया गया है या जसि डिजाइन या निर्माण में बदल दिया गया है या संशोधित किया गया है। यहां वर्णति सीमति वारंटी एक लागू कानून के अतिरिक्त है। उपयोग के लिए मर्र्चेंटबिलिटी और फटिनेस की वारंटी सहति सभी गर्भति वारंटी नीचे निर्धारित मूल खरीद की तारीख से अवधि तक सीमति है। कुछ राज्य इस बात पर सीमाओं की अनुमति नहीं देते हैं कि एक नहिंति वारंटी कतिनी देर तक चलेगी, इसलिए उपरोक्त सीमा आप पर लागू नहीं हो सकती हैं। न तो वकिरेता के वकिरी कर्मियों और न ही किसी अन्य व्यक्ति को यहां वर्णति उन लोगों के अलावा किसी भी वारंटी बनाने के लिए या समय अवधि से परे किसी भी वारंटी की अवधि का वसितार करने के लिए अधिकृत है Bitty पीढ़ी की तुलना/Fabrique नवाचार इंक की ओर से यहां वर्णति

यहां वर्णति वारंटी बट्टी पीढ़ी की तुलना/फैब्रिक इन्वोवेशन इंक द्वारा दी गई एकमात्र और अनन्य वारंटी हांगी। और दोषों के क्रेता सुधार के लिए उपलब्ध एकमात्र और अनन्य उपाय होगा, तरीके से और यहां वर्णति समय की अवधि के लिए, उत्पाद के संबंध में खरीदार को बट्टी पीढ़ी की तुलना/फैब्रिक इन्वोवेशन इंक की सभी देनदारियों और जम्मेदारियों की पूरी पूर्ति का गठन करेगा और अल दावों की पूर्ण संतुष्टि का गठन करेगा, चाहे अनुबंध लापरवाही, सख्त क्षमता या अन्यथा पर आधारित हो। किसी भी घटना में बट्टी पीढ़ी की तुलना/Fabrique नवाचार इंक उत्तरदाई या किसी भी तरह से परिणामी आर्थिक या ठीक से नुकसान के किसी भी प्रासंगिक के लिए जम्मेदार होगा। कुछ राज्य आकस्मिक या परिणामी क्षति के बहिष्कार की अनुमति नहीं देते हैं, इसलिए उपरोक्त बहिष्कार आप पर लागू नहीं हो सकता है। यह वारंटी आपको वशिष्ट कानूनी अधिकार देती है। आपके पास अन्य अधिकार भी हो सकते हैं, जो राज्य से राज्य में भिन्न होते हैं।

ब्लूटूथ® शब्द नशान और लोगो ब्लूटूथ SIG, इंक के स्वामित्व वाले ट्रेडमार्क पंजीकृत है और Fabrique नवाचारों इंक द्वारा इस तरह के नशान के किसी भी उपयोग/ अन्य ट्रेडमार्क और व्यापार के नाम उनके संबंधित मालिकों के हैं।

एफसीसी चेतावनी: यह डेवाइस एफसीसी नियमों के भाग 15 का अनुपालन करता है। ऑपरेशन नमिनलखिति दो शर्तों के अधीन है: (1) यह डेवाइस हानिकारक हस्तक्षेप का कारण नहीं बन सकता है, और (2) इस डेवाइस को प्राप्त किसी भी हस्तक्षेप को स्वीकार करना चाहिए, जसिमें हस्तक्षेप शामिल है, जसिमें अवांछित ऑपरेशन हो सकता है। अनुपालन के लिए जम्मेदार पार्टी द्वारा स्पष्ट रूप से अनुमोदित नहीं किए गए किसी भी परिवर्तन या संशोधन से उपकरण संचालित करने के लिए उपयोगकर्ता के अधिकार को शून्य कर सकता है। नोट: इस उपकरण का परीक्षण किया गया है और एफसीसी नियमों के भाग 15 के अनुसार, एक वर्ग बी डिजिटल डेवाइस के लिए सीमा का पालन करने के लिए पाया गया है। ये सीमाएं आवासीय स्थापना में हानिकारक हस्तक्षेप के खिलाफ उचित सुरक्षा प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई हैं। यह उपकरण उपयोग उत्पन्न करता है और रेडियो फ्रीक्वेंसी ऊर्जा को वकिरण कर सकता है और, यदि निर्देशों के अनुसार स्थापित और उपयोग नहीं किया जाता है, तो रेडियो संचार में हानिकारक हस्तक्षेप हो सकता है। हालांकि, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि किसी वशिष्ट स्थापना में हस्तक्षेप नहीं होगा। यदि यह उपकरण रेडियो या टेलीविजन रसिप्शन में हानिकारक हस्तक्षेप का कारण बनता है, जसि उपकरणों को बंद करके और चालू करके निर्धारित किया जा सकता है, तो उपयोगकर्ता को नमिनलखिति उपायों में से एक या अधिक द्वारा हस्तक्षेप को सही करने की कोशिश करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है: प्राप्त एंटीना को फरि से उन्मुख या स्थानांतरित करना। उपकरण और रसीवर के बीच जुदाई बढ़ाएं। उपकरण को एक सर्कट पर एक आउटलेट में कनेक्ट करें जसिसे रसीवर जुदा हुआ है। मदद के लिए डीलर या एक अनुभवी रेडियो/टीवी तकनीशियन से परामर्श करें। डेवाइस का मूलयांकन सामान्य आरएफ एक्सपोजर आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया गया है। डेवाइस का उपयोग बना किसी प्रतिबंध के पोर्टेबल एक्सपोजर स्थिति में किया जा सकता है। यह डेवाइस उद्योग कनाडा लाइसेंस-छूट आरएएसएस मानक (ऑ) का अनुपालन करता है। ऑपरेशन नमिनलखिति दो शर्तों के अधीन है: (1) यह डेवाइस हस्तक्षेप का कारण नहीं बन सकता है, और (2) इस डेवाइस को किसी भी हस्तक्षेप को स्वीकार करना चाहिए, जसिमें हस्तक्षेप शामिल है जो डेवाइस के अवांछित संचालन का कारण बन सकता है।

© 2021, Fabrique Innovations Inc., © 2021 Bitty Boomers, © 2021 Bigger Bitty Boomers • द्वारा वतिरति Fabrique Innovations Inc., New York, NY 10018 • 800-511-1595 • सभी अधिकार आरक्षित • मेड इन चाइना



FCC ID: 2AR17BB5 IC: 24431-BB5  
CMIIT ID: 2020DP3626 QDID: 172491  
घोषणा ID: D056623 HVIN: BB5

प्रश्न या तकनीकी सहायता के लिए कृपया संपर्क करें:

support@bittyboomers.com






**TINY SIZE. HUGE SOUND.**

BittyBoomers.com

**KURZANLEITUNG**



- Schalten Sie EIN / AUS, indem Sie die Taste für 3 Sekunden drücken.
- Wenn der Lautsprecher ein piepender Geräusch macht, bedeutet dies, dass der Lautsprecher aufgeladen werden muss.
- Das Die Taste kann auch verwendet werden, um Fotos von Ihrem Smartphone aufzunehmen, wenn die Kamera-App des Smartphones ausgeführt wird.
- Jeder Lautsprecher wird mit einem Schlüsselband geliefert, das durch einen Einzug / ein Loch auf dem Lautsprecher platziert werden kann. Der Standort variiert je nach Design.

**KOPPELN DES LAUTSPRECHERS MIT EINEM BLUETOOTH-FÄHIGEN GERÄT**

- Einschalten, indem Sie die Taste Taste für 3 Sekunden.
- Ein blaues LED-Licht leuchtet auf und blinkt dann schnell, was darauf hinweist, dass es sich im Pairing-Modus befindet.
- Suchen Sie im Bluetooth-Menü Ihres Geräts nach **"Bitty Boomer"** und wählen Sie es aus.
- Ein Ton ertönt, wenn die Kopplung abgeschlossen ist.

**2 LAUTSPRECHER MITEINANDER KOPPELN**

- Stellen Sie sicher, dass derzeit keine **"Bitty Boomer"**-Lautsprecher an Ihr Gerät angeschlossen sind. Wenn dies der Ist, trennen Sie die Bluetooth-Einstellungen des Geräts.
- Schalten Sie jeden Lautsprecher einzeln ein.
- Doppelklicken Sie auf Taste am 2. Lautsprecher. Sie hören ein Zwitschern, dann macht der gegenüberliegende Lautsprecher einen kurzen Verbindungston. (Wenn Sie keinen Verbindungston hören, doppelklicken Sie auf die gegenüberliegende Seite Lautsprecher Knopf)

**VERBINDEN MIT MEHREREN GERÄTEN**

- Nur 1 Gerät kann innerhalb der Reichweite angeschlossen werden.
- Um ein anderes Gerät im gleichen Bereich anzuschließen, müssen Sie zuerst **"Bitty Boomer"** vom aktuell angeschlossenen Gerät trennen.

**AUFLADEN DES INTERNEN AKKUS**

Stecken Sie das Micro-USB-Ende des Ladekabels in den Lautsprecheranschluss auf der Rückseite des Lautsprechers. Schließen Sie das USB-Ende des Ladekabels an einen USB-Computeranschluss oder USB-Stecker/Adapter an. Sobald die LED-Anzeige vollständig aufgeladen ist, ertleuchtet sie.

**PRODUKTSPEZIFIKATIONEN**

- BELASTBARKEIT: PO = 1X3W
- SENDEFREQUENZ: 20HZ-20KHZ
- THD: <1%
- S/N: >80DB
- LAUTSPRECHER-PARAMETER: 3W
- BATTERIE: 3.7V/300mAH
- BLUETOOTH VERSION: V5.3

**Warnung:** Um das Risiko von Feuer oder elektrischem Schlag zu verringern, setzen Sie diesen Lautsprecher nicht Regen oder Feuchtigkeit aus (einschließlich Schwimmbäder oder Gegenstände, die mit Flüssigkeiten gefüllt sind, wie Vasen oder Getränke). Warnung: Ihr Lautsprecher verfügt über einen internen Akku. Unsachgemäße Verwendung kann dazu führen, dass der Lautsprecher heiß wird, sich entzündet oder platzt und Verletzungen verursacht, wenn er Missbrauchsbedingungen ausgesetzt ist.

**Wichtige Sicherheitshinweise:** 1. Lesen Sie vor gebrauch immer die Sicherheits- und Bedienungsanleitung. Bewahren Sie Anweisungen für eine spätere Referenz auf. 2. Nur für den Innenbereich. Setzen Sie den Lautsprecher nicht Flüssigkeit, Feuchtigkeit oder Feuchtigkeit aus. 3. Verwenden Sie keine abrasiven Reiniger, um das Lautsprechergehäuse zu reinigen, da sie das Finish beschädigen können. Flüssige Reiniger können auch in den Lautsprecher eindringen und interne Teile beschädigen. Ein einfaches Tuch, um Schmutz und andere Partikel abzuwischen, wird die Arbeit gut machen. Trennen Sie das Gerät immer vor der Reinigung. 4. Setzen Sie den Lautsprecher nicht extrem hohen oder niedrigen Temperaturen aus. 5. Halten Sie das Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt. 6. Versuchen Sie nicht, den Lautsprecher in irgendeiner Weise zu öffnen oder zu ändern, da er keine wartbaren Teile enthält. 7. Bitte lagern Sie den Lautsprecher an einem trockenen Ort, der frei von extremen Temperaturen und Staub ist. 8. Bedienen Sie den Lautsprecher immer auf einer ebenen und ebenen Oberfläche. 9. Wenn das Gerät eingesteckt ist, arbeiten Sie immer weg von kleinen Kindern oder kleinen Tieren alsthey may play with the power cord. 10. Do not leave a fully charged battery connected to a charger, overcharging may shorten its lifetime. 11. Always dispose of the packaging and speaker in accordance with the local regulations and in a responsible manner.

**EINGESCHRÄNKTE GARANTIE:** Bitty Boomers/ Fabrique Innovations Inc. garantiert dem ersten Verbraucher Käufer, dass dieses Produkt, wenn es in seinem Originalbehälter an den ursprünglichen Käufer versandt wird, für ein Jahr frei von fehlerhafter Verarbeitung und Materialien ist und stimmt zu, dass es nach eigenem Wahl entweder den Mangel repariert oder das defekte Produkt oder einen Teil davon kostenlos für den Käufer für Teile oder Arbeit für die beschriebenen Zeiträume ersetzt. Diese Garantie gilt nicht für Erscheinungsgegenstände des Produkts oder für die unten aufgeführten zusätzlichen ausgeschlossenen Gegenstände oder für Produkte, deren Äußeres beschädigt oder verunstaltet wurde und die missbräuchlich, abnormalen Dienstleistungen oder Händen ausgesetzt waren oder die in Design oder Konstruktion verändert oder modifiziert wurden. Die hier beschriebene beschränkte Garantie gilt zusätzlich zu einem anwendbaren Recht. ALLE STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEN, EINSCHLIEßLICH DER GARANTIEN DER MARKTGÄNGIGKEIT UND GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT, SIND AUF DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN ZEITRAUM AB DEM DATUM DES URSPRÜNGLICHEN KAUFES BESCHRÄNKT. Einige Staaten erlauben keine Einschränkungen, wie lange eine stillschweigende Garantie dauert, so dass die oben genannte Einschränkung möglicherweise nicht für Sie gilt. Weder das Verkaufspersonal des Verkäufers noch eine andere Person ist berechtigt, im Namen von Bitty Boomers/ Fabrique Innovations Inc. andere als die hier beschriebenen Garantien zu übernehmen oder die Dauer von Garantien über den hier beschriebenen Zeitraum hinaus zu verlängern. Die hierin beschriebenen Garantien sind die einzigen und ausschließlichen Garantien, die von Bitty Boomers/ Fabrique Innovations Inc. gewährt werden, und sind das einzige und ausschließliche Rechtsmittel, das dem Käufer zur Verfügung steht Korrekturen von Mängeln in der hier beschriebenen Art und Weise und für den hier beschriebenen Zeitraum stellen die vollständige Erfüllung aller Verbindlichkeiten und Verantwortlichkeiten von Bitty Boomers / Fabrique Innovations Inc. gegenüber dem Käufer in Bezug auf das Produkt dar und stellen die vollständige Befriedigung aller Ansprüche dar, unabhängig davon, ob sie auf Vertragsverschulden, strenger Haftung oder anderweitig beruhen. In keinem Fall haftet Bitty Boomers/ Fabrique Innovations Inc. für zufällige wirtschaftliche oder ordnungsgemäße Folgeschäden oder in irgendeiner Weise. Einige Staaten erlauben den Ausschluss von zufälligen oder Folgeschäden nicht, so dass der obige Ausschluss möglicherweise nicht für Sie gilt. DIESE GARANTIE GIBT IHNEN BESTIMMTE GESETZLICHE RECHTE. MÖGLICHERWEISE HABEN SIE AUCH ANDERE RECHTE, DIE VON STAAT ZU STAAT VARIIEREN.

Die Bluetooth® Wortmarke und Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc., und jede Verwendung solcher Marken durch Fabrique Innovations Inc./ Bitty Boomers erfolgt unter Lizenz. Andere Marken und Handelsnamen sind die ihrer jeweiligen Inhaber.

**FCC-Warnung:** Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Regeln. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können. Alle Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können die Befugnis des Benutzers zum Betrieb des Geräts aufheben. Hinweis: Dieses Gerät wurde getestet und erfüllt die Grenzwerte für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Regeln. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor funktechnischen Störungen in einer Wohnanlage bieten. Dieses Gerät erzeugt Verwendungen und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen und kann, wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, schädliche Störungen der Funkkommunikation verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie, dass in einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät schädliche Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, die durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden können, wird der Benutzer aufgefordert, zu versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu korrigieren: Neuausrichtung oder Verlagerung der Empfangsantenne. Erhöhen Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger. Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose in einem anderen Stromkreis an als dem, an den der Empfänger angeschlossen ist. Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio- / TV-Techniker, um Hilfe zu erhalten.

Das Gerät wurde so bewertet, dass es die allgemeinen HF-Expositionsanforderungen erfüllt. Das Gerät kann uneingeschränkt im tragbaren Expositionsstatus verwendet werden. Dieses Gerät entspricht den lizenzfreien RSS-Standards von Industry Canada. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss alle Störungen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb des Geräts verursachen können.

© 2021, Fabrique Innovations Inc., © 2021 Bitty Boomers, © 2021 Bigger Bitty Boomers • Verteilt von Fabrique Innovations Inc., New York, NY 10018 • 800-511-1595 • Alle Rechte vorbehalten • Hergestellt in China



FCC ID: 2AR17BB5 IC: 24431-BB5  
 CMIIT ID: 2020DP3626 QDID: 172491  
 ERKLÄRUNG ID: D056623 HVIN: BB5

Bei Fragen oder technischem Support wenden Sie sich bitte an:


[support@bittyboomers.com](mailto:support@bittyboomers.com)



TINY SIZE. HUGE SOUND.

BittyBoomers.com

## GUÍA DE INICIO RÁPIDO



- Encienda/apague pulsando el botón durante 3 segundos.
- Si el altavoz hace un sonido de pitido, esto significa que el altavoz debe cargarse
- El botón también se puede utilizar para tomar fotos desde su teléfono inteligente cuando la aplicación de la cámara del teléfono inteligente se está ejecutando.
- Cada altavoz viene con un cordón que se puede colocar a través de una muesca / agujero en la parte superior del altavoz. La ubicación varía dependiendo del diseño.

## EMPAREJAMIENTO DE ALTAVOCES CON DISPOSITIVOS HABILITADOS PARA BLUETOOTH

- Encienda presionando el botón durante 3 segundos.
- Una luz LED azul se encenderá y luego parpadeará rápidamente, lo que indica que está en modo de emparejamiento.
- En el menú Bluetooth de su dispositivo, localice y seleccione **"Bitty Boomer"**
- A tone will sound when pairing is complete.

## EMPAREJAMIENTO DE 2 ALTAVOCES

- Asegúrese de que no haya altavoces **"Bitty Boomer"** conectados actualmente a su dispositivo. Si es así, desconecte en la configuración de Bluetooth de los dispositivos.
- Enciéndase cada altavoz de uno en uno.
- Haga doble clic en el botón en el segundo altavoz. Escuchará un sonido de chirrido, luego el altavoz opuesto hará un sonido de conexión corto. (Si no escucha el sonido de conexión, haga doble clic en opuesto Botón de altavoz)

## CONEXIÓN A VARIOS DISPOSITIVOS

- Solo se puede conectar 1 dispositivo dentro del alcance.
- Para conectar un dispositivo diferente en el mismo rango, primero debe desconectar **"Bitty Boomer"** del dispositivo conectado actual.

## CARGA DE LA BATERÍA INTERNA

Inserte el extremo Micro USB del cable de carga en el puerto del altavoz ubicado en la parte posterior del altavoz. Enchufe el extremo USB del cable de carga en un puerto de computadora USB o en un enchufe/adaptador USB. Una vez completamente cargada, la luz indicadora led se apagará.

## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

- POTENCIA NOMINAL: PO = 1X3W
- FRECUENCIA DE TRANSMISIÓN: 20HZ-20KHZ
- THD: <1%
- S/N: >80DB
- PARÁMETRO DE ALTAVOZ: 3W
- BATTERY: 3.7V/300MAH
- VERSIÓN BLUETOOTH: V5.3

**Advertencia:** Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este altavoz a la lluvia o la humedad (incluyendo piscinas u objetos llenos de líquidos, como jarrones o bebidas). **Advertencia:** El altavoz tiene una batería recargable interna. El uso inadecuado puede resultar en que el altavoz se caliente, se encienda o se rompa y cause lesiones si se expone a condiciones de abuso.

**Instrucciones de seguridad importantes:** 1. Siempre lea las instrucciones de seguridad y operación antes de usarlas. Conserve las instrucciones para referencias posteriores. 2. Sólo para uso en interiores. No exponga el altavoz al líquido, la humedad o la humedad. 3. No utilice limpiadores abrasivos para limpiar la carcasa del altavoz, ya que pueden dañar el acabado. Los limpiadores líquidos también pueden entrar en el altavoz y dañar las partes internas. Un paño simple para limpiar la suciedad y otras partículas hará el trabajo muy bien. Siempre desconecte la unidad antes de limpiar. 4. No exponga el altavoz a temperaturas extremadamente altas o bajas. 5. Mantenga la unidad lejos de la luz solar directa. 6. No intente abrir o modificar el altavoz de ninguna manera, ya que no contiene ninguna parte útil. 7. Por favor, guarde el altavoz en un lugar seco que esté libre de temperaturas extremas y polvo. 8. Siempre opere el altavoz en una superficie plana y nivelada. 9. Si la unidad está enchufada, siempre opere lejos de niños pequeños o animales pequeños, ya que pueden jugar con el cable de alimentación. 10. No deje una batería completamente cargada conectada a un cargador, la sobrecarga puede acortar su vida útil. 11. Deseche siempre el embalaje y el altavoz de acuerdo con la normativa local y de manera responsable.

**GARANTÍA LIMITADA:** Bitty Boomers / Fabrique Innovations Inc. garantiza al primer comprador consumidor que este producto, cuando se envíe en su contenedor original al comprador original, estará libre de obra y materiales defectuosos durante un año y acepta que, a su elección, reparará el defecto o reemplazará el producto defectuoso o parte del mismo sin cargo para el comprador por piezas o mano de obra durante los períodos de tiempo descritos. Esta garantía no se aplica a ningún artículo de apariencia del producto ni a los artículos excluidos adicionales establecidos a continuación ni a ningún producto cuyo exterior haya sido dañado o desfigurado que haya sido objeto de mal uso, servicio o entrega anormal o que haya sido alterado o modificado en el diseño o la construcción. La garantía limitada descrita en este documento es adicional a una ley aplicable. **TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA EL USO, SE LIMITAN AL PERÍODO A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA ORIGINAL QUE SE ESTABLECE A CONTINUACIÓN.** Algunos estados no permiten limitaciones sobre cuánto tiempo dura una garantía implícita, por lo que es posible que la limitación anterior no se aplique en su caso. Ni el personal de ventas del vendedor ni ninguna otra persona está autorizado a hacer ninguna garantía que no sean las descritas en este documento o para extender la duración de cualquier garantía más allá del período de tiempo descrito en este documento en nombre de Bitty Boomers / Fabrique Innovations Inc. Las garantías descritas en este documento serán las únicas y exclusivas garantías otorgadas por Bitty Boomers / Fabrique Innovations Inc. y serán el único y exclusivo recurso disponible para el comprador correcciones de defectos, en la forma y durante el período de tiempo descrito en este documento, constituirá el cumplimiento completo de todas las responsabilidades y responsabilidades de Bitty Boomers / Fabrique Innovations Inc. para con el comprador con respecto al producto y constituirá la plena satisfacción de todas las reclamaciones, ya sea basado en negligencia contractual, estricta labilidad o de otra manera. En ningún caso Bitty Boomers / Fabrique Innovations Inc. será responsable o de ninguna manera responsable de cualquier daño económico incidental o adecuado. Algunos estados no permiten la exclusión de daños incidentales o consecuentes, por lo que la exclusión anterior puede no aplicarse a usted. **ESTA GARANTÍA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS. TAMBIÉN PUEDE TENER OTROS DERECHOS, QUE VARÍAN DE UN ESTADO A OTRO.**

La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Fabrique Innovations Inc./ Bitty Boomers se realiza bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales son los de sus respectivos propietarios.

Advertencia de la FCC: Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado. Cualquier Cambio o modificación no expresamente aprobada por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo. Nota: Este equipo ha sido probado y se ha encontrado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera usos y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay ninguna garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación determinada. Si este equipo causa interferencias perjudiciales a la recepción de radio o televisión, que pueden determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas: Reorientar o reubicar la antena receptora. Aumentar la separación entre el equipo y el receptor. Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente de aquel al que está conectado el receptor. Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado de radio/TV para obtener ayuda. El dispositivo ha sido evaluado para cumplir con el requisito general de exposición a RF. El dispositivo se puede utilizar en condiciones de exposición portátiles sin restricciones. Este dispositivo cumple con los estándares RSS exentos de licencia de Industry Canada. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluida la interferencia que pueda causar el funcionamiento no deseado del dispositivo.

© 2021, Fabrique Innovations Inc., © 2021 Bitty Boomers, © 2021 Bigger Bitty Boomers • Distribuido por Fabrique Innovations Inc., New York, NY 10018 • 800-511-1595 • Todos los derechos reservados • Hecho en China

CE FCC CP65 RoHS

FCC ID: 2AR17BB5 IC: 24431-BB5  
CMIIT ID: 2020DP3626 QDID: 172491  
DECLARACIÓN ID: D056623 HVIN: BB5

Para preguntas o soporte técnico, póngase en contacto con:  
[support@bittyboomers.com](mailto:support@bittyboomers.com)